



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 494] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 17, 1976/कार्तिक 26, 1898

No. 494] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 1976/KARTIKA 26, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

ORDER

New Delhi, the 17th November 1976

S. O. 737(E).—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S. O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay, hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35mm (in_mtrs.)	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
INR 1456		239'00	Films Division, Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		"News and Current Events".

1	2	3	4	5	6
2	INR 1456 (Southern Edition)	302.00	Films Division Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		"News and Current Events" (Release in Southern Circuit).
3	INR 1457	222.00	Do.		"News and Current Events".
4	INR 1457 (Western Edition)	292.00	Do.		Do. (Release in Western Circuit).
5	INR 1458	236.00	Do.		"News and Current Events".
6	INR 1458 (Northern Edition)	292.00	Do.		Do. (Release in Northern Circuit).
7	INR 1459	232.00	Do.		"News & Current Events".
8	INR 1459 (Eastern Edition)	304.00	Do.		"News and Current Events" (Release in Eastern Circuit).
9	Mahitichitra No. 235	140.21	Assistant Director of Information, Government of Gujarat, Sachivalaya, Gandhi Nagar.	Director of Information, Government of Gujarat, Sachivalaya, Gandhi Nagar.	"News & Current Events" (Release in Gujarat Circuit).
10	Mahitichitra No. 236	174.74	Do.		Do.
11	Maharashtra News No. 299	245.00	Directorate General of Information, Govt. of Maharashtra, Film Centre, 68, Tardeo Road, Bombay-34.		"News & Current Events (Release in Maharashtra Circuit).
12	The First Leap (Colour)	293.00	Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		"Educational"
13	Brothers	225.00	Do.		Do.
14	Man Made Rivers	296.00	Do.		Do.
15	The Craze	443.00	Do.		Do.
16	Realm of Youth	296.00	Do.		Do.
17	Kam Ki Baat	33.00	Do.		"Educational" (Release in Hindi and North Indian Circuit).
18	Zimmedar Waria	286.51	Shri Onkar Kapoor, Shri Prem Kapoor, for Shri Prem Kapoor, 226-Jawaharlal Nagar, Bombay-62.		"Documentary"
19	Aulad ka Matlab	24.00	Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		"Educational"
20	Nature's Symphony	287.12	Shri Arjun Jairamdas, 14, Tughlak Road, New Delhi.		Do.
21	Credit to Progress	290.00	Films Division, Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		Do.
22	The Blessing of Beas.	298.00	Do.		Do.
23	Bach Gaya	226.77	M/s. Shansad Films Pvt. Ltd. 2/1, Moti-wala Mansion, Gwalia Tank Road, Bombay-36.	Shankar Kinagi & Sadique Al Edroos.	Do. (Release in Hindi speaking circuit).

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1976

क्रा० प्रो० 737 (अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० प्रो० 3792, दिनांक 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमन के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद एतद्द्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि० मी० (मीटर में)	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैधानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंटरी फिल्म है।
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1456	239-00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार 24-पैडर रोड, बम्बई-26		'समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म'
2.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1456 (दक्षिण संस्करण)	302-00	—तद्वैव—		तद्वैव (दक्षिण सर्किट में प्रदर्शन के लिए)
3.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1457	222-00	—तद्वैव—		'समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म'
4.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1457 (पश्चिम संस्करण)	292-00	—तद्वैव—		तद्वैव (पश्चिम सर्किट में प्रदर्शन के लिए)

1	2	3	4	5	6
5.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1458	236-00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26		'समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म'
6.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1458 (उत्तरी संस्करण)	292-00	-तदेव-		तदेव (उत्तरी सर्किट में प्रदर्शन के लिए)
7.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1459	232-00	-तदेव-		'समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म'
8.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1459 (पूर्वी संस्करण)	304-00	-तदेव-		तदेव (पूर्वी सर्किट में प्रदर्शन के लिए)
9.	महिती चित्र संख्या 235	140-21	सहायक सूचना निदेशक, गुजरात सरकार सचिवालय, गांधीनगर	सूचना निदेशक, गुजरात सरकार, सचिवालय, गांधी नगर	'समाचार और सामयिक घट- नाओं की फिल्म' (गुजरात सर्किट में प्रदर्शन के लिए)
10.	महिती चित्र संख्या 236	174-74	-तदेव-		-तदेव-
11.	महाराष्ट्र समाचार संख्या 299	245-00	सूचना महानिदेशा- लय, महाराष्ट्र सरकार, फिल्म सेंटर, 68, तारदेव रोड, बम्बई-34		'समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म' (महाराष्ट्र सर्किट में प्रदर्शन के लिए)
12.	पहलो उड़ान (रंगीन)	293-00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26		'शिक्षा सम्बन्धी'
13.	भाई-भाई	225-00	-तदेव-		-तदेव-
14.	मनुष्य निर्मित नदियां	296-00	-तदेव-		-तदेव-
15.	कैसो चाहत	443-00	-तदेव-		-तदेव-
16.	युवक क्षेत्र	296-00	-तदेव-		-तदेव-

1	2	3	4	5	6
17.	काम की बात	33-00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार 24-पैडर रोड, बम्बई-26	(‘शिक्षा सम्बन्धी’ (हिन्दी और उत्तर भारत सकिट में प्रदर्शन के लिए)	
18.	जिम्मेदार धारिस	286-51	श्री श्रींकार कपूर, श्री प्रम कपूर, कृते श्री प्रेम कपूर, 226, जवाहर लाल नगर, बम्बई-62	‘डाकुमेंट्री’	
19.	श्रीलाव का मतलब	24-00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26	‘शिक्षा सम्बन्धी’	
20.	नेचर्स सिम्फोनी	287-12	श्री अर्जुन जयराम दास, 14, तुगलक रोड, नई दिल्ली	-तदैव-	
21.	प्रगति का आधार	290-00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26	‘शिक्षा सम्बन्धी’	
22.	बलिहारी व्यास की	298-00	-तदैव-	-तदैव-	
23.	बच गया	226-77	मैसर्स शंसाद शंकर किनागो फिल्म्स प्रा० लि०, तथा सादिक 2/1, मोतीवाला अल एडुस मेशन, गोवालिया टैंक रोड, बम्बई-36	-तदैव- (हिन्दी भाषी सकिट में प्रदर्शन के लिए)	

[सं० फा० 201/1/76-एफ (पी) परिशिष्ट संख्या 2075]

श्यामसुन्दर सेठ,

अनुभाग अधिकारी (विशेष)

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा निर्यत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

